

## प्रेस नोट

### स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों का जायजा

आज दिनांक 12-8-2014 को पूर्वाह्न 11.30 बजे समाहर्तालय सभागार में श्री विनोद पी. कावले, भा.प्र.से., समाहर्ता एवं जिलाधीश, दीव की अध्यक्षता में "स्वतंत्रता दिवस" समारोह की तैयारियों का जायजा लेने हेतु एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला प्रशासन के सभी अधिकारी उपस्थित थे। समाहर्ता एवं जिलाधीश महोदय ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि यह एक राष्ट्रीय पर्व है और इसके आयोजन में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनदेखी बरदास्त नहीं की जाएगी। यह हमारे राष्ट्रीय सम्मान का पर्व है, इसलिए इस अवसर पर सबकी उपस्थिति अनिवार्य है। बरसात की संभावना के मद्देनजर समाहर्ता महोदय ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आम जनता, विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों एवं स्वतंत्रता सेनानियों की सुविधाओं का विशेष रूप से ख्याल रखा जाए तथा उनसे सम्मानपूर्ण तरीके से पेश आया जाए। इस अवसर पर आयोजित किये जानेवाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों को सुनियोजित ढंग से प्रस्तुत किया जाए।

परिवहन अधिकारी, दीव को निदेश देते हुए उन्होंने कहा कि "सारथी" बस सेवा के जरिए लोगों को, विशेषकर स्वतंत्रता सेनानियों एवं वरिष्ठ नागरिकों को वणांकबारा, बुचरवाड़ा, नागवा व घोघला आदि जगहों से पद्मभूषण स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, दीव तक लाने एवं कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात उन्हें उनके गन्तव्य तक सकुशल एवं सुरक्षित पहुंचाने की व्यवस्था करें। इसमें किसी भी प्रकार की कोताही न बरती जाए। उन्होंने प्रतिभागियों को सभी आवश्यक सुविधा मुहैया कराने के निदेश भी दिए।

समाहर्ता महोदय ने स्वतंत्रता दिवस को और अधिक बेहतर तरीके से मनाने के सुझाव भी मांगे। अंत में उन्होंने सभी को स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं दी और बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।

-----